



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-17102024-257975
CG-GJ-E-17102024-257975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]
No. 794]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक अधिसूचना

वडोदरा, 8 अक्टूबर, 2024

फा. सं. बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम/06/1763.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल, प्रयोजक बैंक होने के नाते बैंक ऑफ बड़ौदा और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्वारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों) सेवा विनियम, 2019 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

- (1) इन विनियमों को बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा.
- (2) ये संशोधन, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे.
2. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2019 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 61 के उप-विनियमन (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) विशेषाधिकार अवकाश 270 दिनों से अधिक तक का नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिन के लिए ही किया जा सकेगा।”

3. उक्त विनियमों के विनियम 67 के,-

क) दूसरे प्रावधान में, “बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त” शब्दों के बाद, “विनियमन 11 के प्रावधानों के अंतर्गत” शब्द सम्मिलित किए जाएंगे;

ख) तीसरे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, यथा:-

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि उस कर्मचारी के संबंध में जिसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त कर दी जाती हैं, वह विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो उसने विनियमन 61 के उप-विनियमन (4) के अधीन जमा कर रखा था।”

ग) तीसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा,-

“यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के विनियमन 27 के उप-विनियम (1) और (2) के तहत विधिवत् नोटिस देने के बाद अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपने द्वारा विनियम 61 के उप-विनियम (4) के अधीन संचित विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, जिसमें दंड भी शामिल है, वह विनियमन 61 के उप-विनियम (4) के अधीन, किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या काम पर आना बंद कर देता है या विनियम 10 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के तहत पदत्याग कर देता है, तो वह सेवा की समाप्ति की तिथि को उसके खाते में जमा विशेषाधिकार छुट्टी की आधी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यह अवधि अधिकतम 120 दिन तक की ही हो सकती है।”

योगेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./562/2024-25]

नोट: सम्मेलन उपरान्त बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों) सेवा विनियम, 2019 को दिनांक 30.05.2024 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में, दिनांक 29.05.2024 की अधिसूचना संख्या बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम/06/596 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

BARODA GUJARAT GRAMIN BANK

NOTIFICATION

Vadodara, the 8th October, 2024

F. No. BGGGB/HO/HRM/06/1763.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with sub-section (1) of Section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Baroda Gujarat Gramin Bank after consultation with Bank of Baroda, being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2019, namely : -

1. (1) These regulations may be called the “Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers & Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024”.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2019 (hereinafter referred to as the said regulations) in the regulations 61 for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days, except where leave has been applied for and it has been refused :

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days “

3. In the said regulations, in regulation 67 -

(a) In second proviso, after the words “retires from the service of the Bank”, the words “under the provisions of regulation 11” shall be inserted.

(b) For third Proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulations 61”

(c) After third proviso, the following provisos shall be inserted, namely :-

“Provided also that where an officer or employee voluntarily retires from service on or after the 1st of April, 2018, after giving due notice under sub-regulations (1) and (2) of regulations 27 of the Baroda Gujarat Gramin Bank (Employees’) Pension Regulations, 2018, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated, subject to sub-regulations (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee leaves or discontinues from service or resigns under the provisions of sub-regulation (1) of regulation 10, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days”

YOGESH KUMAR AGRAWAL, Chairman

[ADVT. -III/4/Ety./562/2024-25]

Note : On account of amalgamation w.e.f.01/04/2019, the Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2019 were published in the Gazette of India, Part-III, section-4, dated the 30.05.2024, vide notification number BGGB:HO:HRM:06:596 dated.29.05.2024